

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर

आवश्यकता है

सुरक्षा परामर्शक

विज्ञापनसं. 10200701,

दिनांक: 09.12.2020

सार्वजनिक क्षेत्र की विश्व विख्यात अग्रणी 'नवरत्न' उद्यम नालको को बेहतरीन रिकार्डधारी बहुमुखी प्रतिभा वाले सुरक्षा परामर्शक (अनारक्षित) की आवश्यकता है, जो ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के समस्त सुरक्षा गतिविधियों की देखभाल करेंगे। पद तथा योग्यता मानदंड निम्नानुसार हैं:-

पद	सुरक्षा परामर्शक
योग्यता मानदंड	: (i) उग्रवाद/ आतंकवाद तथा नक्सलवाद का सामना करने का कम से कम 20 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। भारतीय सशस्त्र बल, अर्ध सैन्य बल, केंद्रीय सशस्त्र बल या राज्य पुलिस बल में एक ऑपरेशनल यूनिट की कमान संभाली हो। (ii) पुलिस अधीक्षक/ कर्नल या समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उच्चतम आयु सीमा :	: दिनांक 09.12.2020 के अनुसार 62 वर्ष
धारिता अवधि	: प्रारम्भ में तीन (03) वर्ष हेतु, जिसे प्रबंधन के निर्णय के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
मासिक पारिश्रमिक	: ₹ 1,20,000/- (समेकित)
अन्य लाभ	: कंपनी के नियमानुसार कंपनी आवास, स्थानीय परिवहन, टेलीफोन व्यय, आधिकारिक यात्रा पर टीए/डीए, स्वयं तथा पति/पत्नी के लिए चिकित्सा लाभ, अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ
भूमिका तथा उत्तरदायित्व	: - केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राज्य और स्थानीय पुलिस अधिकारियों, क्षेत्र में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पैरा मिलिट्री फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क व समन्वय द्वारा उचित सुरक्षा उपायों की निगरानी और सुनिश्चित करना। - सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए एल्यूमिना संयंत्र, खान और टाउनशिप की सुरक्षा आवश्यकताओं का आवधिक मूल्यांकन करना। - विभिन्न सुरक्षा खतरों की कल्पना और अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए, शीर्ष प्रबंधन को अपडेट करने के लिए खतरे का आकलन तैयार करना और समय पर सक्रिय उपचारात्मक उपायों को सुनिश्चित करना। - टाउनशिप सुरक्षा कार्य हेतु तैनात निजी सुरक्षा एजेंसियों के बारे में प्रबंधन को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करना। - सीआईएसएफ के विकास के लिए जनशक्ति, उपकरण और अन्य आवश्यकताओं के संदर्भ में उपाय सुझाना ताकि नक्सल माहौल में अपनी तैयारियों को बढ़ाया जा सके।
विविध	: प्रबंधन के पास कोई भी कारण बताए बिना उपरोक्त पद को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित है। नालको के पास भर्ती/चयन के बाद भी रद्द/सीमित/संशोधित करने का भी अधिकार सुरक्षित है।

इच्छुक अभ्यर्थी हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो, मोबाइल नंबर के साथ अपनी उम्र, योग्यता, अनुभव, वर्तमान और स्थायी पते के संबंध में सभी विवरण और सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त विवरण के साथ आवेदन उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), भर्ती अनुभाग, नालको भवन, पी/1 नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013 को 06.01.2021 तक पहुँच जाना चाहिए।